

भारतीय रेल की टीम ने फ्रांस में जीता विश्व रेलवे शूटिंग चैम्पियनशिप का खिताब



मुंबई। 9 अक्टूबर, 2016 से 13 अक्टूबर, 2016 तक फ्रांस के सेंट मेंड्रियर में आयोजित विश्व रेलवे शूटिंग चैम्पियनशिप में भारतीय रेल ने पहली बार खिताब जीता। 15 वें यूएसआई-इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड में भारतीय रेलवे की टीम ने 5 स्वर्ण, 3 रजत तथा 2 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीतकर चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया।

पश्चिम रेलवे के 5 सदस्यों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। 12 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई पश्चिम रेलवे के श्री विश्वजीत शिंदे ने की, जिनमें ओलम्पियन सुश्री अयोनिका पॉल, स्टालवार्ट, पश्चिम रेलवे की सुश्री शुमा शिरूर, सुश्री तेजस्विनी, सुश्री रुचिता वेनेरकर के साथ श्री स्वप्निल कुशाले, श्री जितेन्द्र विभुते, श्री सुमेध देवलालीवाला तथा कोच के रूप में पश्चिम रेलवे की सुश्री अनुजा टेरे सहित महाराष्ट्र राज्य के 8 शूटर शामिल थे। भारतीय टीम ने 50 मीटर रायफल प्रतियोगिता में जर्मनी तथा फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जीता। श्री स्वप्निल कुशाले तथा सुश्री तेजस्विनी मुले ने क्रमशः स्वर्ण पदक एवं रजत पदक जीता। भारतीय टीम ने एयर रायफल प्रतियोगिता में भी फ्रांस तथा नार्वे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। सुश्री अयोनिका पॉल, सुश्री शुमा शिरूर तथा श्री गुरजीत ने क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीतकर सभी पदक भारतीय टीम के नाम किये। एयर पिस्टल में भी भारतीय टीम का दबदबा कायम रहा तथा इसमें तीसरी टीम गोल्ड तीनों पदक भारतीय टीम के नाम रहे। इसमें तीनों शूटर श्री जितेन्द्र विभुते, श्री सुमेध देवलालीवाला एवं श्री विपिन राणा ने क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीता।

काराको, पोलैंड में आयोजित पिछली विश्व रेलवे चैम्पियनशिप में भारतीय टीम फ्रांस से मात्र 8 अंक से पिछड़कर उप विजेता रही थी, परन्तु इस बार भारतीय टीम ने कोई मौका न गँवाकर 100 अंकों से अधिक की बढ़त बनाते हुए खिताब जीता। यूएसआईसी (यूनियन स्पोर्टिव इंटरनेशनले डेस चेमेंटोस) एक अंतरराष्ट्रीय रेलवे खेलकूद संघ है, जिनमें विभिन्न देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। यूएसआईसी का प्रमुख उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में रेलकर्मियों के बीच खेलकूद के महत्त्व को बढ़ावा देना है तथा ओलम्पिक के आदर्श की भाँति सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता तथा गणतंत्र को बढ़ावा देना है।